



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख 1939 (श०)

(सं० पटना 339) पटना, बुधवार, 26 अप्रील 2017

गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश
23 जून 2016

सं० अ०नि० (16) 07/2015 (विविध) 749—जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, पटना के ज्ञापांक 2959 दिनांक 14.11.2014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 13293 दिनांक 05.10.1991 एवं 5958 दिनांक 25.04.2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्व० अरुण कुमार, कक्षपाल, अधीक्षक उप कारा, बाढ़ के पुत्र श्री जयकान्त कुमार को अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान PB1-5200-20200 ग्रेड—पे 1900 एवं समय—समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए इनका पदस्थापन जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा में की जाती है।

2. श्री जयकान्त कुमार नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा में अपना योगदान समर्पित करेंगे अन्यथा इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

3. यदि श्री जयकान्त कुमार की नियुक्ति आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दु के विरुद्ध हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटि के पद को अग्रणीत कर दिया जायेगा।

4. योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्र तथा जन्म तिथि प्रमाण—पत्र एवं अन्य वॉछित कागजातों/प्रमाण—पत्रों को मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

5. योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र मूल रूप से समर्पित करना होगा।

6. स्व० अरुण कुमार, के आश्रित परिवार के सदस्यों के भरण—पोषण का दायित्व श्री जयकान्त कुमार पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर इसे गंभीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए इनके विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर परिलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। इस संबंध में विहित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।

7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर इन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।
9. इनकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की जाँच निर्गत करने वाले संस्थान से करा ली गई है।
10. इन्हें छः माह के अन्दर टंकण ज्ञान परीक्षा/कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

आदेश से,
(ह०)-असपष्ट,
निदेशक, अभियोजन।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 339-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>